

Date: 29.06.2022

Corporate Relations Department <b>BSE Limited</b> 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Tower Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001	Corporate Listing Department <b>National Stock Exchange of India Ltd</b> Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C-1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051.
--	--

Dear Sir/s

**Sub: Newspaper Advertisement regarding Postal Ballot and remote e-voting.**

**Scrip Code:** BSE Code: 541700, NSE Code: TCNSBRANDS

**Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith, enclosed the copy of newspaper advertisement in respect of Postal Ballot/E-voting and information on related matters, published in the following newspapers:

1. Business Standard-English on 29<sup>th</sup> June 2022.
2. Business Standard-Hindi on 29<sup>th</sup> June 2022.

This is for your information and records

Thanking you

For and On behalf of **TCNS Clothing Co. Limited**

  
Piyush Asija  
Company Secretary and Compliance Officer  
M. No: A21328

Date: 29.06.2022

Place: New Delhi



**TCNS Clothing Co. Limited**

119 & 127, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI-110030, INDIA  
PH: 011-42193193, Fax: 011-42193194, E-mail: corporatecommunications@tcnsclothing.com, www.wforwoman.com, www.shopforaurelia.com  
REGD. OFFICE: 119, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI- 110030  
CIN- L99999DL1997PLC090978

# CERT-IN gives 3-month relief to VPN providers

SOURABH LELE  
New Delhi, 28 June

India's Computer Emergency Response Team (CERT-In) has extended until September 25 the deadline to comply with its cyber security norms for Virtual Private Network (VPN) and cloud services, after foreign providers said they would remove their servers from the country.

September 25 is the new compliance date for micro, small and medium enterprises (MSMEs). Other businesses, which don't provide VPN or cloud services, will have to comply with the earlier deadline of June 27.

The September 25 extension will "enable the industry to build the capacity required for the implementation of the cyber security directions," said the Ministry of Electronics and Information Technology in a press release.

CERT-In directions, released on April 28, mandate service providers to keep records of every information and communication technology (ICT) transaction for a minimum of 180 days.

They require service providers to maintain the personal information of subscribers for



## THE GUIDELINES

- MSMEs, data centres, cloud service providers, VPS, and VPN providers must comply with CERT-IN norms by September 25
- Ministry had agreed to consider relaxations for start-ups for compliance with specific requirements
- The decision has been

taken to enable the industry to build capacity for the implementation

- Many VPN providers decided to close down servers in India after the norms were released in April
- Industry leaders ask for more clarity on compliance guidelines

five years or longer, as can be demanded by CERT-In in case of a cybersecurity incident.

The new deadline comes after VPN providers, including ExpressVPN, NordVPN, and SurfShark, earlier this month decided to remove their servers in India. SurfShark said it operates a "no logs" policy. "So such new requirements go against the core ethos of the company. A VPN is an online privacy tool, and SurfShark was founded to make it as easy to use for the common users as possible," said the company a blog post.

It could not be immediately ascertained if the new deadline will prompt VPN players to reconsider their strategy for India, but the government is unlikely to ease the guidelines.

Rajeev Chandrashekar, Minister of State for Electronics and Information and Technology, last month told VPN companies they are free to leave India. "If you're a VPN that wants to hide and be anonymous about those who use VPNs and you don't want to go by these rules, then if you want to pull out (from the country), frankly, that is the only opportunity you will have. You will have to pull out," he said.

Pankit Desai, co-founder and CEO of Securetek, a Mumbai-based cyber security company, said the deadline extension would help firms enter a dialogue with the CERT-In authority.

"However, there remains ambiguity on what has been

asked and how companies will comply with it, for example, incident reporting. There is a lack of clarity around how an incident is being defined," Desai said. He said it was also not clear whether the companies need to report an unsuccessful attempt to breach companies' cyber defences and if there would be a framework from the government side to help companies that have suffered a cyberattack.

Sandip Kumar Panda, the co-founder at InstaSafe Technologies, said an extension was expected as CERT-In's guidelines cannot be implemented quickly. "The timelines and the excessive data retention mandates will have negative implications in delivery and practice of it," he said.

# Tata Steel plans for expansion intact: Chandra

ISHITA AYAN DUTT  
Kolkata, 28 June

Tata Group Chairman Natarajan Chandrasekaran hopes that industry-specific policy measures taken by the government to tackle inflation are short-term. He has indicated Tata Steel isn't slowing down expansion plans.

Addressing shareholders at the company's annual general meeting (AGM), Chandrasekaran, who is also chairman of Tata Steel, said that the steel industry in India is globally competitive and therefore the Indian steel companies should be able to expand capacity in value-added steel products for both "make in India" and "make for the world".

"This is a defining moment in history where the steel industry can leverage its competitive position and export its products globally to not only earn foreign exchange but also provide opportunities for capital formation in India, provide employment and more importantly, allow Indian companies to invest in sustainable technology and create value for the long term," he said.

His comments come at a time when the steel industry has been adversely impacted by 15 per cent export duty



"Currently, we have a headwind because of the export duty. But overall, when you look at the future, I think India will be a net exporter of steel after substantially meeting the domestic demand"

**NATARAJAN CHANDRASEKARAN**  
Tata Group Chairman

imposed last month, leading to a steep correction in steel prices.

Responding to shareholder queries, Chandrasekaran said overall demand for steel was strong internationally. "Currently, we have a headwind because of the export duty. But overall, when you look at the future, I think India will be a net exporter of steel after substantially meeting the domestic demand."

# Adani Ports moves SC after HC rejects plea against JNPA for disqualifying bid

BHAVINI MISHRA  
New Delhi

Adani Ports and Special Economic Zone approached the Supreme Court against the Bombay High Court's order dismissing its plea challenging the disqualification of its bid by the Board of Trustees of Jawaharlal

Nehru Port Authority (JNPA). The contract was for upgrading a container terminal in Navi Mumbai.

The counsel for Adani Ports approached the apex court bench of Justices Surya Kant and J B Pardiwala on Tuesday seeking an urgent listing of the matter. The counsel sought to

restrain JNPA from proceeding with other bids until the matter is heard by the apex court.

"This is an extraordinary urgency. India's leading port manager was cleared as a bidder, but was disqualified later. Then, the High Court gave a judgment yesterday dismissing our plea challenging the dis-

qualification and now they are offering the bid again. Kindly list the matter tomorrow and ask them to not proceed with other bids," the counsel for Adani Ports, said in a virtual appearance.

The Bench told the counsel to approach the Vacation Officer.

#BSMorningShow

**Infocus**

How can India create 75 more Tiruppur?

**Today's Special**

What legacy has Pallonji Mistry left behind?

**Market Insight**

Will fizz return to liquor stocks?

presents

**The Business Standard MORNING SHOW**

Mon - Fri | 8am

Get the answers in today's episode

Visit [mybs.in/MorningShow](https://mybs.in/MorningShow) or scan this code to watch.

bsindia bsindia business-standard.com

### FORM G - INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1 Name of the corporate debtor	RAJESH BUSINESS & LEISURE HOTELS PRIVATE LIMITED
2 Date of incorporation of corporate debtor	21st October 2005
3 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Mumbai, under the Companies Act, 1956
4 Corporate Identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U65100MH2005PTC156835
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 139, Sakinaka Chambers, 2nd floor, N.M. Road, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400023, India
6 Insolvency commencement date of the corporate debtor	20th April 2022 (Copy of order received by IRP on 26th April 2022)
7 Date of invitation of expression of interest	29th June 2022
8 Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at	Details can be obtained by sending an email to <a href="mailto:ip.rh@in.ey.com">ip.rh@in.ey.com</a> and <a href="mailto:ip.rh@in@gmail.com">ip.rh@in@gmail.com</a> for the detailed IEOI and eligibility criteria
9 Norms of ineligibility applicable under section 25A are available at	Details can be obtained by sending an email to <a href="mailto:ip.rh@in.ey.com">ip.rh@in.ey.com</a> and <a href="mailto:ip.rh@in@gmail.com">ip.rh@in@gmail.com</a>
10 Last date for receipt of expression of interest	19th July 2022
11 Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	29th July 2022
12 Last date for submission of objections to provisional list	3rd August 2022
13 Date of issue of final list of prospective resolution applicants	13th August 2022
14 Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	3rd August 2022
15 Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution Professional will share the documents through Electronic mail or virtual data room after verification of KYC, eligibility under section 25A of IBC, 2016 and prequalification criteria, as approved by CoC.
16 Last date for submission of resolution plans	2nd September 2022
17 Manner of submitting resolution plans to resolution professional	By post or by hand delivery in sealed envelope and through electronic mail at <a href="mailto:ip.rh@in.ey.com">ip.rh@in.ey.com</a> and <a href="mailto:ip.rh@in@gmail.com">ip.rh@in@gmail.com</a> and as mentioned in the request for resolution plan.
18 Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	17th October 2022
19 Name and registration number of the resolution professional	Mr. Rohit Mehra IP Reg No: IBB/PA-001/IP-P00799/2017-2018/11374
20 Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Address: Tower A 3403, Oberoi Woods, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063 E-mail ID: <a href="mailto:rohitmehra@hotmail.com">rohitmehra@hotmail.com</a>
21 Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address: Tower A 3403, Oberoi Woods, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063 E-mail ID: <a href="mailto:ip.rh@in.ey.com">ip.rh@in.ey.com</a> and <a href="mailto:ip.rh@in@gmail.com">ip.rh@in@gmail.com</a>
22 Further Details are available at or with	Can be obtained by sending an email to <a href="mailto:ip.rh@in.ey.com">ip.rh@in.ey.com</a> and <a href="mailto:ip.rh@in@gmail.com">ip.rh@in@gmail.com</a>
23 Date of publication of Form G	29th June 2022

For RAJESH BUSINESS & LEISURE HOTELS PRIVATE LIMITED  
IP Reg No: IBB/PA-001/IP-P00799/2017-2018/11374  
Registered Address: Tower A 3403, Oberoi Woods, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063  
Date: 29th June 2022, Place: Mumbai

## TCNS CLOTHING CO. LIMITED

CIN: L99999DL1997PLC090978  
Regd. Office: Unit No. 119, W-House, New Manglapuri, Mandi Road, Sullampur, Mehrauli, New Delhi-110030  
Corporate Office: 119 & 127, W-House, New Manglapuri, Mandi Road, Sullampur, Mehrauli, New Delhi-110030  
Tel: 011-42193193, Email: [investors@tcnsclothing.com](mailto:investors@tcnsclothing.com), Website: [www.wforwoman.com](http://www.wforwoman.com)

### Information regarding Postal Ballot/ E-Voting

In compliance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with applicable rules, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with the general circular Nos. 14/2020 dated 08 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 22/2020 dated 15 June 2020, 33/2020 dated 28 September 2020, 39/2020 dated 31 December 2020, 10/2021 dated 23 June 2021, 20/2021 dated 08 December 2021 and 3/2022 dated 05 May 2022 (collectively referred to as the "MCA Circulars"), Members may please note that TCNS Clothing Co. Limited (the "Company") will be seeking consent of the Members by way of Postal Ballot/ Voting by Electronic means ("Postal Ballot") to transact the business(es) that will be set forth in the Postal Ballot Notice ("Notice").

In accordance with the MCA Circulars, the Notice will be sent only through electronic mode to all the Members holding securities of the Company as on Friday, 24 June 2022 ("Cut Off Date") and whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participants (DP's). The Notice will also be available on the website of the Company at [www.wforwoman.com](http://www.wforwoman.com), on the website of KFin Technologies Limited, Company's RTA ("KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com> and on the websites of Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively. The manner, instructions and other information relating to e-voting process will be provided in the Notice.

Members holding shares in physical form who have not yet registered their email addresses with the Company are requested to register the same by following the procedure specified in the Notice i.e. either by registering through the link <https://ris.kfintech.com/client-services/postalballot/> or by writing to Kfintech at [einward\\_ris@kfintech.com](mailto:einward_ris@kfintech.com) along with the following documents:

- Scanned copy of signed request letter mentioning their name and address;
- Scanned copy of the share certificate (front and back);
- Self-attested scanned copy of PAN Card; and
- Self-attested scanned copy of any document (viz. Aadhar card, Driving License, Passport) in support of their address.

Members holding shares in dematerialized form and who have not yet registered/updated their e-mail addresses are requested to get their e-mail addresses registered/updated with their respective DPs.

This advertisement is being issued for the benefit of all the members of the Company.

By order of the Board for TCNS Clothing Co. Limited  
Piyush Asija  
Company Secretary & Compliance Officer  
M. No. A21328

Place: New Delhi  
Date: 29<sup>th</sup> June 2022

For Bharat Forge Limited  
Tejaswini Chaudhari  
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Pune  
Date: 28.06.2022

## APPOINTMENTS

www.bankofbaroda.in

### RECRUITMENT NOTICE

**Bank of Baroda, one of the India's Largest Bank is looking for qualified and experienced Chartered Accountant professionals for various functions/ positions in Finance Department.**

**Nature of Engagement: REGULAR**

Sr. No.	Discipline	Grade/Scale	Vacancy
1	Business Finance	MMG/S-III	04
2		SMG/S-IV	04
3	Internal Controls	MMG/S-III	02
4		SMG/S-IV	03
5	Financial Accounting	MMG/S-III	01
6		SMG/S-IV	01
<b>Total</b>			<b>15</b>

Eligibility criteria (age, qualification & experience), requisite fees and other details are available on Bank's website. Interested candidates are advised to visit the Bank's website [www.bankofbaroda.in](http://www.bankofbaroda.in) -> Career Page -> Current Opportunities -> 'Recruitment of CA Specialist Officers for Finance Function', for further details.

Candidates are advised to go through the detailed advertisement and should ensure their eligibility before applying and remitting fees.

Any addendum/ corrigendum/ modification shall be notified only on the Bank's website.

**Date for filling Online Application & Payment of Fee : 29.06.2022 to 19.07.2022 (23:59 hours).**

**Place: Mumbai CHIEF GENERAL MANAGER (HRM)**  
Date: 29.06.2022

**BHARAT FORGE LIMITED**  
CIN : L25209PN1961PLC012046  
Regd. Office : Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411 036, Maharashtra, India  
Ph. No.: 91-20-6704 2777 / 2476 Fax No.: 91-20-2682 2163  
E-mail: [secretarial@bharatforge.com](mailto:secretarial@bharatforge.com) Website : [www.bharatforge.com](http://www.bharatforge.com)

### 61<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

In pursuance of the provisions of General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, 20/2020 dated May 05, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 14/2020 dated April 08, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other provisions of applicable law in this regard, we hereby notify as follows:

- The 61<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Friday, August 12, 2022 at 11:00 a.m. (I.S.T.)** to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM.
- Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22:**
  - will be sent to all Shareholders by e-mail, whose e-mail addresses are registered with M/s Link Intime India Private Limited- Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company / Depository Participant(s) and;
  - will be uploaded on the website of the Company at [www.bharatforge.com](http://www.bharatforge.com), website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), and also on the website of RTA at [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in).
- Registering / updating e-mail addresses:**
  - Shareholders holding shares in physical form are requested to furnish required details as mentioned below to the Company's RTA at [ml.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:ml.helpdesk@linkintime.co.in).
  - Shareholders holding shares in dematerialized form (DEMAT) are requested to register or update their e-mail addresses and mobile number with their relevant Depository Participant(s).
- Manner of casting vote(s) through e-voting:**
  - Shareholders will have an opportunity to cast their vote(s) remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM;
  - The manner of voting remotely by Shareholders holding shares in DEMAT, physical form, and for Shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company at [www.bharatforge.com](http://www.bharatforge.com).
- Record date for dividend and payment thereof:**
  - The Company has fixed Friday, July 15, 2022 as the 'Record Date' for determining entitlement of Shareholders to final dividend for the financial year ended March 31, 2022.
  - The dividend, if approved at the AGM, will be paid on or after Friday, August 19, 2022.
  - Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have registered their bank account details with the RTA of the Company. Demand draft / Dividend Warrant will be dispatched to the registered addresses of the Shareholders who have not registered their bank account details.
  - To avoid delay in receiving dividend, Shareholders are requested to update their KYC with their relevant Depository Participant(s) (where shares are held in DEMAT) and with Company's RTA (where shares are held in physical form).
- Manner of registering e-mail address / bank account mandate:**

For DEMAT holding	Shareholders are required to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their relevant Depository Participant
For physical holding	Shareholders are required to register / update the details in prescribed Form (ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company at <a href="mailto:ml.helpdesk@linkintime.co.in">ml.helpdesk@linkintime.co.in</a> or by writing to them at M/s Link Intime India Private Limited, C-101, First Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai-400083 Shareholders may download the prescribed forms from the Company's website at: <a href="https://www.bharatforge.com/investors/shareholders-information/shareholder-download">https://www.bharatforge.com/investors/shareholders-information/shareholder-download</a>
- Tax on dividend:**

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2020 and the Company is required to deduct Tax at Source (TDS) from dividend paid to the Shareholders at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961 (IT Act). To enable compliance with TDS requirements, Shareholders are requested to complete and/or update their residential status, PAN, and category with their Depository Participant(s) or in case shares are held in physical form, with the Company or the RTA. An e-mail dated June 24, 2022 has been circulated to the Shareholders of the Company in which the detailed procedure to be followed in this regard has been mentioned and the requisite communication also has been placed on the Company's website by assessing the link <https://www.bharatforge.com/investors/aggm>. The Shareholders are requested to upload their documents / status with the Company / RTA / Depository Participant(s) on or before Thursday, July 14, 2022.

No communication on the tax determination / deduction shall be considered after July 14, 2022, in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS.

This notice is being issued for the information and benefit of all Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

**पेगासस एंस्ट्रस रिस्कट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड**  
 45-56, 45<sup>th</sup> फ्लोर, प्री प्रेम हाउस, नई दिल्ली, भारत  
 45-56, 45<sup>th</sup> फ्लोर, प्री प्रेम हाउस, नई दिल्ली, भारत  
 91-2261884700

**परिशिष्ट -IV (नियम 8(1))**  
**कम्पनी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)**

जबकि आर्योएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आरंभियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता (1) मेसर्स लक्ष्मी मेटल्स (इसके प्रोपराइटर श्री आशीष गुप्ता/कर्जदार के माध्यम से), (2) आशीष गुप्ता (सह-कर्जदार) (3) श्रीमती युष्मा गुप्ता (सह-कर्जदार) और (4) अंशुक गुप्ता (सह-कर्जदार) ने सूचना में उल्लिखित 21/05/2021 तक राशि रु. 1,31,43,181.19/- (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख नौसौतरी हजार एक नौ इकतीस एवं उन्नीस पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्यय का उक्त सूचना की प्रतिलिपि को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 21/05/2021 जारी की थी।

अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उक्त कर्जदार का कम्पनी असाइन्डमेंट समझौते के तहत आर्योएल बैंक लिमिटेड द्वारा पेगासस ग्रुप थर्टी-नानु ट्रेड टू (पेगासस) के ट्रेड्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत पेगासस एंस्ट्रस रिस्कट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में सरकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30/09/2021 को सौंप दिया गया।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता अर्थात् (1) मेसर्स लक्ष्मी मेटल्स (इसके प्रोपराइटर श्री आशीष गुप्ता/कर्जदार के माध्यम से), (2) आशीष गुप्ता (सह-कर्जदार) (3) श्रीमती युष्मा गुप्ता (सह-कर्जदार) और (4) अंशुक गुप्ता (सह-कर्जदार) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में विफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 24.06.2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संयोजन करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संयोजन 21/05/2021 तक राशि रु. 1,31,43,181.19/- (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख नौसौतरी हजार एक नौ इकतीस एवं उन्नीस पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्यय के लिए पेगासस के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूति आरंभियों को विनियमित करने के लिए उपरोक्त समझौते के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सरकारी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

निगम सं. 11586, सम्पूर्ण प्रथम तल, प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-28, शांति नगर, दिल्ली-110007 का सम्पूर्ण भाग, तथा उस पर अब विद्यमान समस्त नभयन, संरचनाएँ, सुपरस्ट्रक्चर, फ्लोरिंग एवं फिटिंग तथा इसके चाद उस पर की कुछ भी निर्मित, संलग्न किया जाये तथा उसको जुड़े समस्त अधिकार एवं सुविधाएँ।

ह/- अधिकृत प्राधिकारी  
 पेगासस एंस्ट्रस रिस्कट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड  
 (पेगासस ग्रुप थर्टी-नानु ट्रेड टू के ट्रेड्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

दिनांक : 28.06.2022  
 स्थान : दिल्ली

**सावजनिक सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मन्सुख स्टोक बैंक लिमिटेड ने 21/05/2021 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आरंभियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता (1) मेसर्स लक्ष्मी मेटल्स (इसके प्रोपराइटर श्री आशीष गुप्ता/कर्जदार के माध्यम से), (2) आशीष गुप्ता (सह-कर्जदार) (3) श्रीमती युष्मा गुप्ता (सह-कर्जदार) और (4) अंशुक गुप्ता (सह-कर्जदार) ने सूचना में उल्लिखित 21/05/2021 तक राशि रु. 1,31,43,181.19/- (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख नौसौतरी हजार एक नौ इकतीस एवं उन्नीस पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्यय का उक्त सूचना की प्रतिलिपि को 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 21/05/2021 जारी की थी।

अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उक्त कर्जदार का कम्पनी असाइन्डमेंट समझौते के तहत आर्योएल बैंक लिमिटेड द्वारा पेगासस ग्रुप थर्टी-नानु ट्रेड टू (पेगासस) के ट्रेड्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत पेगासस एंस्ट्रस रिस्कट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास में सरकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30/09/2021 को सौंप दिया गया।

कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता अर्थात् (1) मेसर्स लक्ष्मी मेटल्स (इसके प्रोपराइटर श्री आशीष गुप्ता/कर्जदार के माध्यम से), (2) आशीष गुप्ता (सह-कर्जदार) (3) श्रीमती युष्मा गुप्ता (सह-कर्जदार) और (4) अंशुक गुप्ता (सह-कर्जदार) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में विफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रवर्तन शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 24.06.2022 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संयोजन करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संयोजन 21/05/2021 तक राशि रु. 1,31,43,181.19/- (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख नौसौतरी हजार एक नौ इकतीस एवं उन्नीस पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्यय के लिए पेगासस के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूति आरंभियों को विनियमित करने के लिए उपरोक्त समझौते के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सरकारी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

निगम सं. 11586, सम्पूर्ण प्रथम तल, प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-28, शांति नगर, दिल्ली-110007 का सम्पूर्ण भाग, तथा उस पर अब विद्यमान समस्त नभयन, संरचनाएँ, सुपरस्ट्रक्चर, फ्लोरिंग एवं फिटिंग तथा इसके चाद उस पर की कुछ भी निर्मित, संलग्न किया जाये तथा उसको जुड़े समस्त अधिकार एवं सुविधाएँ।

ह/- अधिकृत प्राधिकारी  
 पेगासस एंस्ट्रस रिस्कट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड  
 (पेगासस ग्रुप थर्टी-नानु ट्रेड टू के ट्रेड्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

दिनांक : 28.06.2022  
 स्थान : दिल्ली

**स्वयं जो बढ़ाए आपकी तरक्की की रफ्तार**

पहला पन्ना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम देश और आपके प्रदेश की सबसे बड़ी बिजनेस खबरें

शेयर्स और क्षेत्रीय मंडियों के भाव प्रमुख शेयर्स और वित्तीय राज्यों की मंडियों के जिनस भाव

कंपनी और जिनस समाचार कंपनियों, स्टॉक-अप और जिनस मार्केट पर नजर, सोमवार से शनिवार

वित्तीय समाचार राजनीतिक और आर्थिक समाचार

आयाम मनोरंजन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्तित्व की बातें

व्यापार गोष्ठी हर सोमवार तक आर्थिक या सामाजिक मुद्दों पर रायकों और विशेषज्ञों की राय

आयाम समाचार पृष्ठ हर सोमवार, 'स्माइल इन्वेंटर' और आपका निवेश

अपनी प्रति के लिए SMS reaches to 57575 or email us at order@bmal.in

बिजनेस स्टैंडर्ड

बेहतर विकल्प से, जो आपकी भाषा में हो

businessstandardhindi | bshindi | hindi.business-standard.com

**यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड**  
 चौथी मंजिल, टावर 3, इन्विवेन्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ना, मुंबई 400070

**कम्पनी सूचना**

परिशिष्ट -IV (नियम 8(1) देखें)  
 (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, टावर 3, इन्विवेन्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ना, मुंबई 400070 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रवर्तन अधिकारों के अनुसरण में, यहाँ वर्णित ऋणियों 1) जेम्सके ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 2) संजय निगम 3) सुनील निगम 4) प्राज्ञ सोल्स, जिनका ऋण खाता संख्या है 110001एफसी0036078, को दिनांक 16 मई, 2022 को मांग सूचना पर जारी किया था जिसके तहत उक्त सूचना पर प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर दिनांक 13 मई, 2022 को सूचना में वर्णित राशि रु. 3,05,99,673/- (रुपये तीन करोड़ पाँच लाख नव्याने हजार छह सौ तिरहत्तर मात्र) और साथ में इस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऋणियों द्वारा धनप्रति न चुकाए जाने के कारण, एतद्वारा ऋणियों एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 7 के अधीन अयोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रवर्तन अधिकारों के अनुसरण में साल 2022 के इतर 27 जून को नीचे वर्णित संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि उक्त संपत्ति के साथ कोई सौदा न करें एवं उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार रु. 3,05,99,673/- (रुपये तीन करोड़ पाँच लाख नव्याने हजार छह सौ तिरहत्तर मात्र) और इस पर ब्याज यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड को चुकाए जाने के अधीन किया हुआ रहेगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

निम्नलिखित अचल संपत्ति के समी एवं अंश - ड्यूलेक्स एचआईजी फ्लैट नं. 3 एवं 4, तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्रगतिशील नगरिक सोजीएचएस, प्लॉट नं. 39, सेक्टर - 9, रोहिणी, दिल्ली-110085 (विशेष रूप से स्वत्वाधिकार दस्तावेजों में संपूर्ण रूप से वर्णित)। -हस्ता/- तिथि: 29.06.2022 (नीरज मिश्रा), प्राधिकृत अधिकारी स्थान: दिल्ली यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

**उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक प्रायोजक- भारतीय स्टेट बैंक**  
 क्षेत्रीय कार्यालय-चतुर्थ, उत्तराखण्ड प्रकाशन परिसर, नैनीताल रोड, हल्द्वानी-263139, दूरभाष- 05946- 284782,83

**परिशिष्ट - IV (नियम 8(1) कम्पनी नोटिस (अचल सम्पत्तियों का कम्पनी नोटिस)**

जबकि वित्तीय आरंभियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम संख्या 54) के अन्तर्गत 13(2) एवं धारा 13(4) संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधीन प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न हस्ताक्षरकर्ता जो कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय-चतुर्थ, उत्तराखण्ड प्रकाशन परिसर, नैनीताल रोड, हल्द्वानी का प्राधिकृत अधिकारी है, ने निम्नलिखित दिनांक को किमांड नोटिस जारी किये जिनमें निम्नलिखित राशि का भुगतान मांग नोटिस की वारंती की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। उधार लेने वाले ऋणियों/बंधककर्ता एवं जमानती धारा राशि के भुगतान करने में असफल हो जाने पर, बंधककर्ता/ऋणी/जमानती को और आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त कथित अधिनियम की धारा 13(4) संपठित उक्त कथित नियम 8 एवं 9 के अधीन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। ऋणी एवं जमानती को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि निम्न सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और इस सम्पत्ति के बाबत किये गये किसी भी व्यवहार पर उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को देय राशि + देय ब्याज व खर्च के अध्वानी बनाने (Charge) होगा।

क्र. सं.	ऋणी एवं जमानती का नाम/पता	बकाया धनराशि (रु० में)	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
1.	<b>ऋणी/बंधककर्ता- श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी- ग्राम- दौलिया डी क्लास, पो- हल्द्वारी, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल। जमानती- 1- श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी- ग्राम बकुलिया, पो- मोटाहन्, जिला नैनीताल।</b>	रु० 17,83,592/- (सत्रह लाख तिरासी हजार पाँच सौ बयानवे) दिनांक 14.04.2021 से ब्याज व अन्य खर्च, घटाएँ वसूली यदि कोई	संपत्ति स्वामी श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट की खाता खतौनी सं 00476, खेत नं 70/2 मि०, कुल क्षेत्रफल- 1700 वर्गफीट, ग्राम दुमका बंगार बच्ची घर्मा, तहसील लालकुआं, जिला- नैनीताल। संपत्ति, जिसकी सीमाएँ- पूरब- श्री नन्दन सिंह का प्लॉट, पश्चिम- श्री त्रिलोक सिंह का प्लॉट, उत्तर- 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- 15 फीट चौड़ा रास्ता	23.06.2022 मांग नोटिस की तिथि 13.04.2021
2.	<b>ऋणी/बंधककर्ता- श्री आनन्द सिंह रावत पुत्र श्री किशान सिंह रावत, निवासी- ग्राम सोनकोट, पुलिस चौकी के सामने, पो- काठगोदाम, जिला नैनीताल। जमानती- 1- श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री किशान सिंह रावत, निवासी- रानीबाग टोक काठगोदाम, पो- काठगोदाम, जिला नैनीताल। 2- श्री गणेश सिंह कांठी पुत्र श्री राम सिंह कांठी निवासी- ग्राम पश्चिमखेडा, गौलापार, पो- काठगोदाम, जिला नैनीताल।</b>	रु० 30,14,194/- (तीस लाख चौदह हजार एक सौ चौराबने) दिनांक 15.12.2020 से ब्याज व अन्य खर्च, घटाएँ वसूली यदि कोई	(1) संपत्ति स्वामी श्री आनन्द सिंह रावत की खाता सं 00022 (पुराना खाता सं 00031), खेत नं 1461 मि०, कुल क्षेत्रफल- 1000 वर्गमीटर, (0.1 हेक्टर) ग्राम डोलनगर, पट्टी चोपड़ा तहसील और जिला- नैनीताल, स्थित संपत्ति। जिसकी सीमाएँ- पूरब-अन्य व्यक्ति की भूमि, पश्चिम- वन विभाग की चौहद्दी उत्तर-वन पंचायत डोलनगर की भूमि दक्षिण- वन पंचायत डोलनगर की भूमि (2) संपत्ति स्वामी श्री आनन्द सिंह रावत की खाता सं 00016 (नया खाता सं 00021), खेत नं 93 मि०, कुल क्षेत्रफल- 217.10 वर्गमीटर, ग्राम बच्चीनगर नं 0.1, तहसील- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, स्थित संपत्ति जिसकी सीमाएँ- पूरब- गुल और उसके बाद अन्य व्यक्तियों की भूमि, पश्चिम- 18 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर-विक्रेता की शोष भूमि, दक्षिण- विक्रेता की शोष भूमि।	23.06.2022 मांग नोटिस की तिथि 31.12.2021
3.	<b>ऋणी/बंधककर्ता- 1. श्री संजय कुमार दुम्का पुत्र श्री पीताम्बर दत्त दुम्का, 2. श्रीमती दीपा दुम्का पत्नी श्री संजय कुमार दुम्का, निवासी- ग्राम ब्रंरपुर, पो- हल्द्वारी, तहसील- लालकुआं, जिला नैनीताल। जमानती- 1- श्री अमर सिंह दिवावली पुत्र श्री पद्म सिंह, निवासी-ग्राम ब्रंरपुर, पो- हल्द्वारी, जिला नैनीताल। 2- श्रीमती आनन्दी देवी पत्नी श्री पीताम्बर दत्त दुम्का, निवासी- ग्राम ब्रंरपुर, पो- हल्द्वारी, जिला नैनीताल।</b>	रु० 36,23,523/- (छत्तीस लाख तेईस हजार पाँच सौ तेईस) दिनांक 12.07.2021 से ब्याज व अन्य खर्च, घटाएँ वसूली यदि कोई	(1) संपत्ति स्वामी श्री संजय कुमार दुम्का की खाता सं 00025 (1421-1426), खेत नं 173 मि०, कुल क्षेत्रफल- 3000 वर्गफीट, ग्राम ब्रंरपुर, तहसील- लालकुआं, जिला नैनीताल स्थित संपत्ति, जिसकी सीमाएँ- पूरब - श्री लक्ष्मी दत्त की संपत्ति, पश्चिम- विक्रेता की भूमि, पश्चिम- श्री खीमानन्द की भूमि, उत्तर-दानकर्ता की भूमि, दक्षिण- 25 फीट चौड़ा रास्ता	23.06.2022 मांग नोटिस की तिथि 12.07.2021
4.	<b>ऋणी/बंधककर्ता- श्री उमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री विद्यालक्ष्मी जोशी प्रो- नैसर्ग दे. पी. एम्बेकी, निवासी- वार्ड नं 0. 2-36/1/1 निकट चरण शॉप, तुलसी नगर पंजीशीट, तहसील-हल्द्वानी, जिला नैनीताल। जमानती- 1. श्रीमती दीपा जोशी पत्नी श्री विद्यालक्ष्मी जोशी, निवासी- वार्ड नं.-2-36/1/1 निकट चरण शॉप, तुलसी नगर पंजीशीट, तहसील- हल्द्वानी, जिला नैनीताल। 2- श्री ललित नोबल पाण्डेय पुत्र श्री इन्द्र नवी पाण्डेय, निवासी- हरीपुर नाटक, कमलुगागाजा, हल्द्वानी, जिला - नैनीताल</b>	रु० 46,97,756/- (चत्तीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ छपन) दिनांक 20.10.2020 से ब्याज व अन्य खर्च, घटाएँ वसूली यदि कोई	संपत्ति स्वामिनी श्रीमती दीपा जोशी पत्नी श्री विद्यालक्ष्मी जोशी की खेत नं 0 1035 मि, खाता नं 0 00301, कुल क्षेत्रफल- 5287.93 वर्गफीट (0.049 हेक्टे.) ग्राम दयुगाडुंगा बंदोबस्ती, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल स्थित संपत्ति, जिसकी सीमाएँ- पूरब- 3 फीट चौड़ी गली उसके बाद श्री चंद्रवत की भूमि, पश्चिम- 3 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर-12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- अन्य व्यक्ति की संपत्ति।	23.06.2022 मांग नोटिस की तिथि 19.10.2020

दिनांक : 29.06.2022 स्थान- हल्द्वानी, उत्तराखण्ड प्राधिकृत अधिकारी

**पंजाब एण्ड सिंग बैंक**  
 शाखा: सदर बाजार (डी-0320)  
 011- 23525262

**कम्पनी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8(1)**

जबकि अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आरंभियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंग बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार श्रीमती कविता पत्नी श्री अशोक कुमार, श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, आंका नारायण पुत्र संत राम, मेसर्स सुंदर फार्मिस्टिक को मांग नोटिस दिनांक 21.04.2022 को जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में बकाया राशि रु. 10,19,964.69 (रु. दस लाख उन्नीस हजार नौ सौ चौदह और पैसे उनहत्तर मात्र) (i) सम्पत्ति सम्मूह OD रु. 5,83,499.00 (रु. पाँच लाख तिरसह हजार चार सौ निचान्ने मात्र) दिनांक 31.03.2022 तक (ii) ECLTL रु. 98,423.89 (रु. अठान्ने हजार चार सौ तेईस और पैसे उनहत्तर मात्र) दिनांक 31.03.2022 तक (iii) MUDRA जोड़ी रु. 3,05,255.00 (रु. तीन लाख पाँच हजार चार सौ पचपन्न मात्र) दिनांक 31.03.2022 तक (iv) ECLTL रु. 52,787.00 (रु. बावन लाख सात सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 31.03.2022 तक उक्त नोटिस की प्रतिलिपि को 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता/गारंटर को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंग बैंक, को देय बकाया राशि रु. 10,19,964.69 और पचपन्न का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान हेतु उक्त नोटिस दिनांक 24.06.2022 को ले लिया है। उधारकर्ताओं का ध्यान हेतु उक्त नोटिस दिनांक 24.06.2022 को ले लिया है।

**अचल सम्पत्ति का विवरण**

सम्पत्ति का वह सन्मत्त भाग एवं अंश जो कि मूलतः, सम्पत्ति नं. 1120-1121 पर निर्मित, भूमि क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, गली गायारा बर्तन मार्केट, सदर बाजार, सदर नाला रोड, दिल्ली-110006 में स्थित, विक्री विलेख दिनांकित 20.07.2004, पंजीकरण नं. 4577, बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1113, पेज नं. 125 से 133 सब रजिस्ट्रार सब प्लान 1, दिल्ली में पंजीकृत, चौहद्दी: उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति, पूरब में - राली, पश्चिम में - अन्य की सम्पत्ति दिनांक 24.06.2022, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंग बैंक

**HDFC**

**हाऊसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.**  
 तृतीय तल, प्रीमियर प्लाजा, 106 राजपुर रोड, फस्टले हॉल के सामने, देहरादून-248001, दूरभाष: 0135-667222  
 CIN : L70100MH1977PLC019916 वेबसाइट : www.hdfc.com

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के प्राधान्य सहित पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के तहत अचल परिसंपत्तियों की विक्री हेतु निविदा लिखी सूचना।

सर्वसाधारण एवं सम्बंधित कॉलम (ए) में निदिष्ट ऋणकर्ताओं एवं गारंटियों को एतद्वारा सूचना दी जा रही है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास सन/प्रासिफ कॉलम (बी) में विवरणित अचल सम्पत्तियों का निर्माण/कब्जा/भौतिक कब्जा जो कि हाऊसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.) के प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (डी) में विवरणितानुसार ले लिया गया है एवं जिसकी विक्री अधोनिदिष्टानुसार 'जो से जहाँ है' 'जैसा है जो है' 'जो है जहाँ है' आधार पर की जाएगी। सूचना प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के तहत कॉलम (ए) में निदिष्टानुसार ऋणकर्ता/गारंटीजोर को दी जा रही है। विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया हाऊसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचडीएफसी लि.) प्रत्याभूत लेनदार की वेबसाइट [WWW.HDFC.COM](http://WWW.HDFC.COM) में प्रावधानित लिंक पर जाएँ।

क्र. सं.	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)
1.	श्री राजीव शुक्ला (ऋणी) श्रीमती ममता शुक्ला (सह-ऋणी)	रु. 7,09,463/- (रु. सात लाख नौ सौ तिरसह मात्र) दिनांक 31.10.2021 तक	अचल सम्पत्ति/ प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण (1 वर्ग मीटर = 10.76 वर्ग फुट के बराबर होता है)	कच्चे का प्रकार	स्थान	आरंभिक कीमत (रु०)	निरीक्षण की तिथि और समय	बोलीयों जमा करने की तिथि	जमा धरोहर राशि (रु०)	निविदा खोलने की तिथि व समय
2.	श्री दीपक शर्मा (ऋणी) श्रीमती शैली शर्मा (सह-ऋणी)	रु. 11,22,651/- (रु. ग्यारह लाख बाईस हजार रु. तीसह हजार मात्र) दिनांक 30.11.2021 तक	अचल सम्पत्ति/ प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण (1 वर्ग मीटर = 10.76 वर्ग फुट के बराबर होता है)	कच्चे का प्रकार	स्थान	आरंभिक कीमत (रु०)	निरीक्षण की तिथि और समय	बोलीयों जमा करने की तिथि	जमा धरोहर राशि (रु०)	निविदा खोलने की तिथि व समय

\*अदायगी एवं/या वसूली की तिथि तक उपर्युक्त आकर्षक खर्च, लागत, प्रभार, इत्यादि, लागू अनुसार 18% वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज सहित संयुक्त।  
 एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारी के संवैतन्य ज्ञान एवं जानकारी अनुसार उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को सम्बंध में कोई भी पूर्व ऋणधारण नहीं है।  
 दिनांक : 29.06.2022 स्थान : देहरादून पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी लि०, रेमन हाउस, एच टी पारख मार्ग, 169, बैकबे रकलेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020 (प्राधिकृत अधिकारी)

**श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
 सीआरएन - L21012DL1972PLC279773  
 पंजीकृत कार्यालय: 4830/24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002  
 ई-मेल: infb@skpmil.com, वेबसाइट: www.skpmil.com, दूरभाष: 91-11-46263200

**50वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना**

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि पंजीकृत कंपनी सूचना में निर्दिष्ट व्यवहार के अंतर्गत के लिए श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 50वीं वार्षिक आम बैठक (पंजीकृत) सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन करवाया जाएगा। ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी के वार्षिक आम बैठक (पंजीकृत) के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओपियोपि') की सुविधा द्वारा एचडीएफसी लिमिटेड के अंतर्गत 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 11/2021 और 2/2022 क्रमशः दिनांक 8 अगस्त, 13 अगस्त, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 2022 ('पंजीकृत तिथि') के माध्यम से किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वैसी')/अन्य आधिकारिक विज्ञापन मीस ('ओ